

ft yk l p u k d k ; k y ; g f j } k j A
f u d V n o i g k p k s l i g k u h d p g j h g f j } k j A

E-mail: suchnaharidwar@gmail.com

n j H k k ' k % 0 1 3 3 4 & 2 2 6 6 9 5] e k s k b y 7 0 5 5 0 0 7 0 1 7

08-10-2019

ç l f o k f l r

g f j } k j A m R r j k [k . M d h j k T ; i k y J h e r h c c h j k u h e k \$ Z u s e a y o k j d k s g f j } k j e a " ; k e i j u t h c k c n j k M e a L F k k f i r 3 0 0 c M o k y s J h / k p p s j V s y g k M L i V y d k m n ? k k V u f d ; k A m n ? k k V u l e k j k g d s v o l j i j e k u u h ; j k T ; i k y e g k e . M y s o j J h / k p n k l t h e g k j k t , o a g k M L i V y d s l L F k k i d L o k e h c k y d n k l t h e g k j k t d s l k F k n h i i T o f y r d j d k ; D e d k " k k k j E H k f d ; k A b l v o l j i j L o k e h c k y d n k l t h e g k j k t u s e k u u h ; j k T ; i k y d k s " k k y , o a L e f r f p l l g H k k / d j l E e k f u r f d ; k A d k ; D e d h v / ; { k r k J h b l n s k d e k j } v f [k y H k k j r h ; d k ; D k f j f . k l n L ; j k V h ; L o ; a l o d l a k r F k k l p k y u L o k e h g j h p r u k U k l n t h e g k j k t u s f d ; k A

ekuuh; jkT; iky usviusl Eclskku eadgk fd श्री धुव्रदास जी महाराज के नाम पर आरम्भ होने वाले इस सेवार्थ अस्पताल dh l fjo/kk feyus ij LFkkuh; ykxka dks "kkkdkk, a mlgkus अस्पताल के संस्थापक स्वामी बालक दास जी महाराज को विशेष बधाई देती हूँ vki ds bl प्रयास से इस मानव कल्याण व सेवार्थ कार्य का आरम्भ यहाँ पर हो रहा है। स्वामी बालक दास जी महाराज ने इस अस्पताल के माध्यम से अपने सद्गुरु स्वामी श्री धुव्रदास जी महाराज का नाम सदैव के लिए अमर कर दिया है। इस क्षेत्र के 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी अस्पताल उपलब्ध नहीं है। इस अस्पताल के खुलने से स्थानीय जनता व यात्रियों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वामी बालक दास जी ds bl dk; Z l s tks LokLF; l j {kk ykxka feyh gSog l jkguh; gA

mlgkus dgk fd प्राचीन काल से ही समय समय पर हमारे साधु सन्तों ने समाज का मार्गदर्शन दिया तथा जब आवश्यकता पड़ी तो समाज के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी किया। साधु सन्तों ने सांसारिक जीवन त्याग कर भी समाज को दूसरों की सेवा का सन्देश दिया है। आज भी धार्मिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक कल्याण व मानवीय कार्यों में योगदान देना धर्म और मानवता का सम्बन्ध मजबूत करता है।

जरूरतमंद रोगियों को सरलता से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना वास्तव में मानवता व पुण्य का कार्य है। हरिद्वार एक तीर्थ नगरी व पर्यटन जिला है। यहाँ स्थानीय आबादी के साथ ही तीर्थयात्रियों पर्यटकों का भी आवागमन रहता है। श्री धुव्र चैरिटेबल ट्रस्ट हाँस्पिटल के खुलने से यहाँ के लोगों तीर्थ यात्रियों कावंडियों पर्यटकों को बड़ा लाभ होगा। आपातकाल के समय लोगों की सरकारी व निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखण्ड अपेक्षाकृत एक नया राज्य है तथा राज्य के समक्ष स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। mlgkus vLirky icll/ku l sdgk fd इस अस्पताल को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए ताकि निर्धन जनता को निःशुल्क उपचार उपलब्ध हो सके। जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण योजना है। हमें प्रयास करना होगा कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचे ताकि हम प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ व समृद्ध भारत के सपने को जल्द पूरा कर सके।

रोगियों को अच्छे उपचार के साथ ही सांत्वनाए स्नेह व सहानुभूति भी जरूर दें। अपने मरीजों से हमेशा मित्रवत् व्यवहार करें। एक आत्मीय व स्नेहशील डाँक्टर निश्चित रूप से अधिक सम्मानित व सफल माना जाता है। चिकित्सक के रूप में आप मानवताए समाज और राष्ट्र की सेवा को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। dk; D e d s l k " p k r e k u u h ; j k T ; i k y u s p . M h n o h d s n " k u d j i n t k v p L u k d h A

bl vol j ij ekuuh; d f c u s / e a h J h l r i k y e g k j k t u s d g k f d u j l o k g h u k j k ; . k l o k g s x j h c d h l o k d j u k g h l P p h l o k g k s c h A m l g k u s d g k f d b l { k s e a v L i r k y [k k s y u k , d i z k u h ; l j k g u h ; d k ; Z g A

ftyk l puk dk; ky; gfj }kjA
fudV nōiġk plōl] iġkuh dpgjh gfj }kjA

E-mail: suchnaharidwar@gmail.com nijHkk'k %01334&226695] ekckby#7055007017

dk; bē l ekjky ea gfj }kj xkeh.k fo/kk; d Jh ; rh"ojkulln] fo"o fgllq ifj'kn l s Jh i d t] Lokeh nokulln
l jLorhjegllr deynkl thjegllr nqkzkkl th] phQ beke Mk0 mej vgen bfy; kl h]phQ dkth eQrh ekqEen rkfgj g d u] Lokeh _f"o]k Ukūn th] vkj-, l-, l-l s blnšk dēkj rFkk l hMhvks fofur rkēj] , l-, l-ih l sUFky vcpb] vij ftykf/kdkjh
i'kk l u Hkxor fd"kkj feJk] , l Mh, e d rē plōku vkfn mi fLFkr FkA

ftyk l puk vf/kdkjh
gfj }kjA